

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 28	मई 30	जून 27		
		1	2	3	4	%
I. बैंक ऋण (II+III)	18243936 (17822569)	16880782 (16385798)	18287597 (17888624)	18483098 (18088612)	1.3 (1.5)	9.5 (10.4)
II. खाद्यान्न ऋण	36531	33904	70581	64389	76.3	89.9
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	18207404 (17786038)	16846879 (16351894)	18217016 (17818043)	18418709 (18024223)	1.2 (1.3)	9.3 (10.2)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2287071	2159559	2298815	2305993	0.8	6.8
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3937149 (3925089)	3728156 (3712270)	3881567 (3869110)	3932773 (3917824)	-0.1 (-0.2)	5.5 (5.5)
2.1 सूक्ष्म और लघु	791721	731625	837079	872577	10.2	19.3
2.2 मध्यम	360475	316322	365914	357618	-0.8	13.1
2.3 बड़े	2784953	2680209	2678574	2702578	-3.0	0.8
3. सेवाएं	5161462 (5094021)	4707069 (4616040)	5090833 (5018221)	5130831 (5060940)	-0.6 (-0.6)	9.0 (9.6)
3.1 परिवहन परिचालक	258409	242193	263377	256635	-0.7	6.0
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	26677	33981	36232	10.1	35.8
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	83091	78351	85206	84781	2.0	8.2
3.4 शिपिंग	7305	7019	7793	8042	10.1	14.6
3.5 विमानन	46026	45360	46326	50750	10.3	11.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	195956	172138	196476	196406	0.2	14.1
3.7 व्यापार	1186787	1059459	1167392	1174129	-1.1	10.8
3.7.1 थोक व्यापार ¹	648619	557604	634298	629888	-2.9	13.0
3.7.2 खुदरा व्यापार	538168	501856	533094	544241	1.1	8.4
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	532757 (488689)	483297 (421756)	549874 (505800)	555519 (513412)	4.3 (5.1)	14.9 (21.7)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1636098	1555496	1562646	1596490	-2.4	2.6
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	323146	328232	308740	331346	2.5	0.9
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	197127	207146	211702	-7.4	7.4
3.10 अन्य सेवाएं ³	1182118 (1166422)	1037078 (1018174)	1177763 (1157271)	1171848 (1152057)	-0.9 (-1.2)	13.0 (13.1)
4. व्यक्तिगत ऋण	5952299 (5610478)	6061987 (5091342)	6150295 (5748146)	6150295 (5840710)	3.3 (4.1)	12.1 (14.7)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23402	24123	23715	23376	-0.1	-3.1
4.2 आवास	3010477 (2689068)	2798568 (2427447)	3037366 (2742752)	3067120 (2776336)	1.9 (3.2)	9.6 (14.4)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141101	126533	142479	145540	3.1	15.0
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	9357	9412	9886	-1.9	5.7
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	273044	290678	292602	2.9	7.2
4.6 शिक्षा	137456	121990	138122	139587	1.6	14.4
4.7 वाहन ऋण	622794	588575	637766	652285	4.7	10.8
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	208735	123776	251369	277025	32.7	123.8
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1513889 (1493525)	1420142 (1396591)	1531082 (1511895)	1542875 (1524110)	1.9 (2.0)	8.6 (9.1)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁴	2287804	2186829	2277560	2274259	-0.6	4.0
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	2240503	2020474	2410013	2460012	9.8	21.8
(iii) मध्यम उद्यम ⁶	601451	511467	610129	591992	-1.6	15.7
(iv) आवास	746651 (665107)	752911 (661668)	750390 (671007)	856626 (776086)	14.7 (16.7)	13.8 (17.3)
(v) शिक्षा ऋण	62825	61269	63146	64355	2.4	5.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	6279	12250	12563	21.7	100.1
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	2949	827	828	-37.1	-71.9
(viii) निर्यात ऋण	12361	11721	12021	13047	5.5	11.3
(ix) अन्य	47900	60871	48675	46467	-3.0	-23.7
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1820904	1716930	1832723	1825579	0.3	6.3

नोट:

- (1) आंकड़े अंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।
- (2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।
- (3) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं।
- 1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।
- 2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
- 3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत नहीं और इंगित नहीं की गई हैं।
- 4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।
- 5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
- 6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
- 7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।